



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1976, फाल्गुन 30, 1897

No. 140]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1976/PHALGUNA 30, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March 1976

S.O. 218(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Act, 1976 (34 of 1976), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1976, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. P. 15012/2/76-D&MS]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1976

का० प्रा० 218 (अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 34) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियत करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध 1976 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त होंगे।

[सं० पी० 15012/2/76-डी० एण्ड एम० एस०]

श्रावण कुमार, संयुक्त सचिव।

(643)

